

USER INSTRUCTION :

1. Clean mobile phone
2. Remove paper from anti radiation chip.
3. Fix chip backside of phone close to antenna.

“Spread this chip to everybody, if you really care your loved and create awareness.

Don't ever sleep with mobile under the pillow.

Most mobiles emits harmful radiation due to transmission of signal Radiation may damage your brain cells. It may also cause headache and muscle pain.



Mfg. / Mkt. By :



MRP. Rs. 299.00
(inclusive of all Taxes)
E.& O.E.

मोबाइल फोन स्वास्थ्य के लिए खतरा !



Anti Radiation Chip

मोबाईल फोन / कम्प्यूटर / माइक्रो वेव ओवन / टी.वी. / फ्रिज / ए.सी. एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाले खतरनाक चुंबकीय तरंग से आपके शरीर की रक्षा करता है।

MEDIA COVERAGE

Radiation affects health: global report



कॉन्समर द्वारा खरीदने से पहले: फोन की गैर रेडिएशन से 6 को कैंसर का दावा



Nav Bharat Times New Delhi, May 18, 2010

Dot wakes up to cancer risk from mobile towers



'Cell overuse may cause brain cancer'



Hindustan, January 17, 2011

शरीर का पानी सोख लेता है मोबाइल



कैंसर का खतरा: रेडिएशन से बड़े को बना डाले टॉवर का विकार



अगर आप इन तमाम बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं तो बिना के **Anti Radiation Chip** के मोबाईल का इस्तेमाल ना करें।

मोबाइल फोन स्वास्थ्य के लिए खतरा !

क्या आप जानते हैं मोबाईल फोन के लगातार इस्तेमाल से कितनी भयंकर बीमारियाँ हो सकती हैं :


- कमजोर याददाश्त
- धुंधला दिखना
- सरदर्द
- थकान
- कान का दर्द बहरापन
- नामर्दगी
- ब्रेन ट्यूमर
- अस्थिर मन
- अधकपारी
- ब्रेन कैंसर



Do You Know long run mobile phone radiation is dangerous to human body. It can cause the following:

- Headache
- Hearing problems
- Brain Tumor
- Cancer
- Loss of concentration & memory
- Lesser sperm count

RESEARCH INDICATE THAT CELL PHONE USE CAN CAUSE:
EMR* in relation to brain Tumour - Source: International Encyclopedia of Neuro science , USA.
EMR in relation to cancer- Source: Institute of Medical Biostatistics, Germany.
EMR in relation to Cardiovascular Disorders- Source: Department of heart Diseases, Italy
EMR in relation to pregnancy and The Risk of Miscarriage. Source: Kaiser Foundation research Institute, Oakland CA, USA.
*Electromagnetic Radiation



Thermographic image of the Head with no exposure to harmful cell phone radiation. Thermographic Image of the Head after a 15-minute phone call: Yellow and Red areas indicate thermal (heating) effects that can cause negative health effects.